



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

No. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2003/माघ 30, 1924

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2003/MAGHA 30, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

का.आ. 202(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष), केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नियम 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष), केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जल भूतल परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नियम, 1995 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 5 के उपनियम (iii) के नीचे निम्नलिखित उपनियम (iii) (क) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“अपर महानिदेशक का पद चयन के क्षेत्र से भरा जाएगा और जिसके लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट होगी।”

3. उक्त नियम में अनुसूची II में भाग I की क्रम संख्यांक (ii) के सामने—

(क) स्तंभ (1) में “7300-100-7600” अंकों के स्थान पर “22,400-525-24,500” अंक रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रोन्नति द्वारा”

(ग) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सेवा के ऐसे मुख्य इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है।”

4. उक्त नियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची V

[देखें नियम 5 iv]

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह क सेवा में अपर महानिदेशक के पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :—

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)	पुष्टि की लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष	लागू नहीं
2. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय—सदस्य	
3. महानिदेशक (स.वि.) और विशेष सचिव—सदस्य”	

[फा. सं. ए-12018/1/2002-स्था.-II]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. संख्या 487, तारीख 6 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 182(अ) तारीख 31-3-1997 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2003

S.O. 202(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Surface Transport (Roads Wing), Central Engineering Service (Roads) Group 'A' (Second Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules 1995 (hereinafter referred to as the said rule); below sub-rule (iii) of rule 5, the following sub-rule (iii)(a) shall be added namely :—

“The post of Additional Director General shall be filled up from the field of selection and minimum qualifying service as specified in Schedule II.”

3. In the said rules, in Schedule II, against Serial number (ii) of Part I,—

(a) in column (1), for the figures “7300-100-7600”, the figures “22400-525-24500” shall be substituted:

(b) in column (3), for the entry, the following shall be substituted, namely :—

“By promotion”;

(c) for the entry in column (4), the following shall be substituted, namely :—

“Chief Engineers of the service with three years regular service in the grade.”.

4. In the said rules, the following Schedule shall be added at the end, namely :—

“SCHEDULE V

[See Rule 5(iv)]

Composition of Departmental Promotional Committee for the post of Additional Director General in the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Service

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For promotion)	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman	Not applicable
2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways—Member	
3. Director General (Road Development and Special Secretary)—Member”	

[No. A-12018/1/2002-Estt. II]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were published vide number GSR 487, dated the 6th November, 1995 and amended vide number GSR 182(E) dated 31-3-1997.